



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 20—अक्टूबर 26, 2012 (आश्विन 28, 1934)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20—OCTOBER 26, 2012 (ASVINA 28, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 12 सितम्बर 2012

सं. ए-20016/06/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सहर्ष, श्रीमती वी. सुकुमारी नायर, नागर विमानन मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड "डी" के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/1/2012-सीएस-II (सी) (वोल्यूम-II) दिनांक 3 अगस्त, 2012 के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड सी (निजी सहायक) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर संघ लोक सेवा आयोग के सीएसएसएस संवर्ग में उनके नामांकन के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये), ग्रेड वेतन 4,600/- रुपये में सीएसएसएस के निजी सहायक के ग्रेड में 31 अगस्त, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19017/05/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सहर्ष, श्रीमती जसकिरण खालसा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड "सी" के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड ए एवं बी विलयित (निजी सचिव) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर संघ लोक सेवा आयोग के सीएसएसएस संवर्ग में उनके नामांकन के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये), ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में सीएसएसएस के निजी सचिव के ग्रेड में 4 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19017/02/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सहर्ष, श्री एस. शंकरन, संचार एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड "सी" के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के

का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड ए एवं बी विलयित(निजी सचिव) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर संघ लोक सेवा आयोग के सीएसएसएस संवर्ग में उनके नामांकन के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये), ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में सीएसएसएस के निजी सचिव के ग्रेड में 31 अगस्त, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19017/04/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सहर्ष, श्रीमती वीरा लक्ष्मी बोक्का, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड "सी" के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड ए एवं बी विलयित(निजी सचिव) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर संघ लोक सेवा आयोग के सीएसएसएस संवर्ग में उनके नामांकन के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये), ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में सीएसएसएस के निजी सचिव के ग्रेड में 3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19017/03/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सहर्ष, श्री जय भगवान चोपड़ा, नागर विमानन मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड "सी" के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड ए एवं बी विलयित(निजी सचिव) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर संघ लोक सेवा आयोग के सीएसएसएस संवर्ग में उनके नामांकन के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये), ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में सीएसएसएस के निजी सचिव के ग्रेड में 31 अगस्त, 2012 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19017/01/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सहर्ष, श्रीमती गुलशन कत्याल, शहरी विकास मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड "सी" के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड ए एवं बी विलयित(निजी सचिव) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर संघ लोक सेवा आयोग के सीएसएसएस संवर्ग में उनके नामांकन के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये), ग्रेड

वेतन 4,800/- रुपये में सीएसएसएस के निजी सचिव के ग्रेड में 30 अगस्त, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 13 सितम्बर 2012

सं. ए-19017/06/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सहर्ष, श्रीमती रजनी पुरिया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड "सी" के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड ए एवं बी विलयित(निजी सचिव) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर संघ लोक सेवा आयोग के सीएसएसएस संवर्ग में उनके नामांकन के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये), ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में सीएसएसएस के निजी सचिव के ग्रेड में 5 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सं. ए-35018/02/2009-प्रशासन-2--इस कार्यालय के दिनांक 08.06.2012 के समसंख्यक अधिसूचना के निरंतरता में एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत, आयोग कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिक 'ग' श्री अवधेश ठाकुर की सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के स्टाफ अधिकारी के पद पर [संशोधित वेतनमान पी.बी.-2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 4,800/- (समूह-ख, राजपत्रित) में] तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 30.08.2012 से 29.11.2012 तक (दिनांक 29.8.2012 को तकनीकी विराम देते हुए) तीन माह या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) के लिए विस्तारित की जाती है।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-35018/02/2009-प्रशासन-2(पार्ट)--इस कार्यालय के दिनांक 27.06.2012 के समसंख्यक अधिसूचना के निरंतरता में एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत, आयोग कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिक 'ग' श्री राजेश जोशी की माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के स्टाफ अधिकारी के पद पर [संशोधित वेतनमान पी.बी.-3, रु. 15,600--39,100/- ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (समूह-'क', राजपत्रित) में] तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 04 अक्टूबर 2012 से 03 जनवरी 2013 तक (दिनांक 03.10.2012 को तकनीकी विराम देते हुए, जबकि दिनांक 02.10.2012 अवकाश हैं) तीन माह या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) के लिए विस्तारित की जाती है।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 सितम्बर 2012

सं. डीपी/पर्स.1/2012/79/3/29/2008--राष्ट्रपति, श्री हेमन्त प्रियदर्शी, भा. पु. सेवा (राजस्थान : 1992) के दिनांक 15.09.2012 के पूर्वाह्न से दिनांक 06.08.2015 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2012/0080/3/100/2004--श्री सौरभ त्रिपाठी, भा. पु. सेवा (एमटी : 1997) ने केंद्र में अनुमोदित कार्यकाल पूरा कर लेने पर दिनांक 01.09.2012 के अपराह्न से पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नीति प्रभाग, नई दिल्ली के कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 1 अक्टूबर 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/0081/3/55/93--श्री आर. एस. पंवार ने अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 30.09.2012 के अपराह्न से अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 सितम्बर 2012

सं. ओ.दो. 3835/10-कार्मिक(चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. सुशान्त चन्देल, चिकित्सा अधिकारी (ईरला-8303) 182 बटालियन, के.रि.पु. बल, द्वारा संबंधित बटालियन से दिनांक 23.05.2012 (पूर्वाह्न) को चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 23.05.2012 (पूर्वाह्न) से हटाया जाता है।

बी.एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक).

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

सं. ई-16015/पि.के.आ.ब्यूरो/2012/कार्मिक-1/445--श्री पवन कुमार सहायक कमांडेण्ट, के.ओ.सुब को आसूचना ब्यूरो नई दिल्ली प्रतिनियुक्त से

प्रत्यावर्तन होने पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से के.ओ.सुब की नफरी में ले लिया गया है:--

नाम	पद	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	के.ओ.सुब/इकाई की नफरी में लिए जाने की तारीख
श्री पवन कुमार	सहायक कमांडेण्ट	आसूचना ब्यूरो नई दिल्ली	4 आ.व. जयपुर 01.08.2012 (पु.)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. 5/1/2012-सी.पी.आई.--अगस्त, 2012 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 2 अंक बढ़ कर 214 (दो सौ चौदह) अंकों के स्तर पर रहा।

एस.एस. नेगी
निदेशक

वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 सितम्बर 2012

सं. ए-19011/69/90/प्रशा-06/प्रशा.II--महामहिम राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह-क) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री आर. करूपैया को सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उपमहानिदेशक (गु.आ.) के पद पर पी.बी.-4 रु. 37,400--67,000/- (+) ग्रेड पे रु. 10,000/- के वेतनमान में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण की तारीख अर्थात् दिनांक 16.08.2012 (अपराह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के.के. सक्सैना
उप निदेशक (प्रशासन)

सं. ए-19011/71/90/प्रशा-06/प्रशा.II--महामहिम राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह-क) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री एच.आर. शर्मा को सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उपमहानिदेशक (गु.आ.) के पद पर पी.बी.-4 रु. 37,400--67,000/- (+) ग्रेड पे रु. 10,000/- के वेतनमान में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण की तारीख अर्थात् दिनांक 17.08.2012 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के.के. सक्सैना
उप निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. ए 19011/636/2012-स्था.ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री टी.के. सोनारकर, को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 07.09.2012 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस.एस. चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए 19012/495/2012-स्था.ए./476--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री विजय कुमार जामी, को भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय अयस्क प्रसाधन प्रयोगशाला, अजमेर में दिनांक 06.07.2012 (पूर्वाह्न) से उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस.एस. चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

दिनांक 1 अक्टूबर 2012

सं. ए 19011/639/2012-स्था.ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री कलमाय मल्लिकार्जुना कूबेन्द्राया, को भारतीय खान ब्यूरो, गोवा में दिनांक 07.09.2012 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस.एस. चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 27 सितम्बर 2012

सं. पीडी/7(22)/2012/भर्ती-IV/8290--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्री के.वी. सुदेव, वैज्ञानिक सहायक/ई पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- को तकनीकी अधिकारी/सी के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100/- ग्रेड पे 5,400/- वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में 1 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. पीडी/2(11)/2011-भर्ती-IV/8293--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित

कॉलम 3 से 5 दर्शाये गये पद, वेतनमान तथा नियुक्ति तिथि में, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति पद	वेतनमान	नियुक्ति तिथि
1.	श्री नितीन रमेश काकडे	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	15,600--39,100/- + 5,400 (ग्रेड पे)	27.04.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री राहुल कुमार चौधरी	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	15,600--39,100/- + 5,400 (ग्रेड पे)	22.05.2012 (पूर्वाह्न)
3.	डॉ. (श्रीमती) शैलजा संजय मडके	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	15,600--39,100/- + 5,400 (ग्रेड पे) + एनपीए	04.09.2012 (पूर्वाह्न)
4.	डॉ. (श्रीमती) अरुणा अमित खत्री	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	15,600--39,100/- + 5,400 (ग्रेड पे) + एनपीए	06.09.2012 (पूर्वाह्न)

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद)

मुंबई-400094, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. एईआरबी/प्रशा./I/77/3899--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने उल्लिखित पदोन्नति पर अगले पद तथा वेतनमान में दिनांक 01.07.2012 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)
1.	श्रीमती रीता रानी मल्होत्रा, वैज्ञानिक अधिकारी-जी	पीबी-4, रु. 37,400--67,000/-	+ ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
2.	डॉ. आर.एम. नेहरू, वैज्ञानिक अधिकारी-जी	पीबी-4, रु. 37,400--67,000/-	+ ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
3.	डॉ. पंकज कुमार दास शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी-जी	पीबी-4, रु. 37,400--67,000/-	+ ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
4.	डॉ. दीनाकृष्ण मोहापात्रा, वैज्ञानिक अधिकारी-जी	पीबी-4, रु. 37,400--67,000/-	+ ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
5.	डॉ. सी. सैथिल कुमार, वैज्ञानिक अधिकारी-जी	पीबी-4, रु. 37,400--67,000/-	+ ग्रेड वेतन रु. 8,900/-

संगीता आर. नाखवा
प्रशासन अधिकारी-III

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 19 सितम्बर 2012

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(जुलाई)/2012/5206--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के

निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एफ) के पद पर काम करने के लिए जुलाई 1, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
1.	डॉ. (श्रीमती) गार्गी चौधरी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई	रु. 15,600--39,100/- (पी.बी.-3) + रु. 7,600/-
2.	श्री जयन्त देबनाथ	वैज्ञानिक अधिकारी-ई	रु. 15,600--39,100/- (पी.बी.-3) + रु. 7,600/-
3.	डॉ. दिशो सन्याल	वैज्ञानिक अधिकारी-ई	रु. 15,600--39,100/- (पी.बी.-3) + रु. 7,600/-
4.	श्री मनिर अहमद	वैज्ञानिक अधिकारी-ई	रु. 15,600--39,100/- (पी.बी.-3) + रु. 7,600/-

अंजन कुमार पात्रा
सहायक कार्मिक अधिकारी (स्था.)

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 27 सितम्बर 2012

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(199)/2011-भर्ती/663--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को आगामी आदेशों तक निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में उनकी पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक तथा ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	सर्वश्री				
1.	ए.एस. अन्सारी	वैअ/ई	रु. 15,600--39,100	रु. 7,600/-	01.07.2011 (पूर्वाह्न)
2.	जे.डी. येवले	वैअ/ई	रु. 15,600--39,100	रु. 7,600/-	01.07.2011 (पूर्वाह्न)
3.	आर. राजीव कुमार	वैअ/ई	रु. 15,600--39,100	रु. 7,600/-	01.07.2011 (पूर्वाह्न)
4.	ए.जी. राजेन्द्र बाबु	तअ/ई	रु. 15,600--39,100	रु. 7,600/-	01.07.2011 (पूर्वाह्न)
5.	संतोष कुमार	वैअ/डी	रु. 15,600--39,100	रु. 6,600/-	01.07.2011 (पूर्वाह्न)
6.	रवी प्रकाश पारीख	वैअ/डी	रु. 15,600--39,100	रु. 6,600/-	01.07.2011 (पूर्वाह्न)

बी. जगन मोहन राव
प्रशासन अधिकारी-III

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/13277--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ भंडारी, [वेतन बैंड (पीबी-2)

रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-], स्टॉक सत्यापन दल, क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में, भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर), केन्द्रीय क्षेत्र, नागपुर में दिनांक 12 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कैथरीन राज

प्रशासनिक अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/972--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/699 दिनांक 31.07.2012 के क्रम में, श्री एस. कोटेश्वर राव, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.11.2012 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

के.पी.एस. पिल्लै

प्रशासनिक अधिकारी-III

सामान्य सेवा संगठन

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 26 सितम्बर 2012

सं. सासेसं/17(27)/2009-भ/635--केन्द्रीय सरकार, दिनांक 29.07.2009 के पूर्व अधिसूचना सं. जीएसओ/17(27)/2007आर/21/446 का अधिक्रमण करते हुए और लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगी के निष्कासन) अधिनियम 1971 (1971 का 40वां) के धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे सारणी के कॉलम (1) में दर्शाए अधिकारी को, सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगी और उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत संपदा अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों का, उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों हेतु उनके क्षेत्राधिकार के स्थानीय सीमाओं के भीतर, निष्पादन करेंगी।

सारणी

कॉलम (1)	कॉलम (2)
अधिकारी का पदनाम	लोक परिसरों की श्रेणियों और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं

श्रीमती एस. जयश्री प्रशासनिक अधिकारी-III भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग का अथवा सामान्य सेवा संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग, उसके नियंत्रणाधीन कल्पाक्कम एवं अणुपुरम कल्पाक्कम-603102, कांचीपुरम जिला, तिरुक्कालुकुन्दन तालुक, कांचीपुरम तमिलनाडु

एस.एस. गोंडारे
प्रशासनिक अधिकारी-III

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

सं. ए-20016/1/79-स्थापना--2 (पार्ट-2) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री ए.के. झोंगरन, अनुभाग अधिकारी दिनांक 30.09.2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

जे. मिंज

उप निदेशक (प्रशासन)

कृते नागर विमानन महानिदेशक

कम्पनी मामले मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अल्मासा कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

सं. 560/(5)/20506--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अल्मासा कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी.एल.मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चंडीगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. आर.ओ.सी./560/5/2000-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	31817	मैसर्स ओपशन्ज ऐबरोड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2.	32076	मैसर्स न्यूरो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
3.	03674	मैसर्स न्यू डिलाईट फाईनान्सर्ज प्राइवेट लिमिटेड
4.	30569	मैसर्स ऐ टैक मल्टीफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	30557	मैसर्स ऐ टैक इन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
6.	30565	मैसर्स ऐ टैक टैक्सन्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज प्राइवेट लिमिटेड
7.	32400	मैसर्स अंगुस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	20819	मैसर्स गुरु कृपा कांडा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड

राज सिंह

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

पंजाब एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चंडीगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2012

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	32508	मैसर्स निम्बुस ओरगैनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	27780	मैसर्स गोल्डन पैसिफिक कम्प्यूटर सिस्टम्ज प्राइवेट लिमिटेड
3.	30758	मैसर्स अमरटैक्स इन्टीग्रेटेड टैक्सटायल पार्क लिमिटेड
4.	18384	मैसर्स गोल्डेज फार्मज प्राइवेट लिमिटेड
5.	32231	मैसर्स इपिंज सोल्युशन्ज लिमिटेड
6.	29061	मैसर्स लीला नैटमार्ट प्राइवेट लिमिटेड

राज सिंह

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

पंजाब एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
ग्वालियर-474009, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

सं. कर/560(5)/2012/232--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	002410	मैसर्स टेकमार्क इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	003632	मैसर्स माजो एग्रो फोरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
3.	003725	मैसर्स मिगमा पैकट्रोन प्राइवेट लिमिटेड
4.	005756	मैसर्स जयम फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	005921	मैसर्स पैरागॉन कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	006054	मैसर्स धनन्जय कन्फैक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड
7.	007202	मैसर्स धार प्लास्टिसाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	008849	मैसर्स अनुपमा ट्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	009110	मैसर्स श्रीनाथजी ड्रग्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	009667	मैसर्स सहयोगी फाईनेन्स एण्ड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
11.	010824	मैसर्स प्रेमाश्रय फार्मेशियल एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
12.	011751	मैसर्स श्रीदर्शन वेयर हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	011768	मैसर्स आर्य औषधी फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
14.	011815	मैसर्स हर्ष मास मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	011951	मैसर्स उज्जैन स्टोन क्योर क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड
16.	012445	मैसर्स ताम्बी फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड
17.	012538	मैसर्स सिंघल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
18.	013909	मैसर्स यील्ड जिओटेक प्राईवेट लिमिटेड
19.	014426	मैसर्स साउंड कन्सलटेन्ट्स इन्दौर लिमिटेड
20.	014938	मैसर्स नागोड सुपर चैनल्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	015879	मैसर्स ग्लोबायोटेक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
22.	015890	मैसर्स इमीनेन्ट मर्केंटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	015978	मैसर्स श्री पार्श्वनाथ कन्सल्टन्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	016633	मैसर्स सहाई इंडिया मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
25.	017628	मैसर्स लाईफ सुरक्षा मल्टी इश्योरेन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
26.	017767	मैसर्स आदि मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	017785	मैसर्स एस. एन. बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
28.	017883	मैसर्स एमराल्ड एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
29.	018202	मैसर्स अथर्व सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	018222	मैसर्स आईवटीटीई एसीई एक्जिमप्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	018608	मैसर्स शुभ लाईफ सोल्युशन्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
32.	018687	मैसर्स ड्रीम्स आईडियल लिमिटेडस जनरेशन प्राईवेट लिमिटेड
33.	019381	मैसर्स परिवार केयर प्राईवेट लिमिटेड
34.	019455	मैसर्स फारमर एस्कार्ट प्राईवेट लिमिटेड
35.	020107	मैसर्स छत्तीसगढ़ उर्जा विकास प्राईवेट लिमिटेड
36.	020336	मैसर्स एमएलवी रीयल एस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड
37.	020494	मैसर्स यूनीफोर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
38.	020604	मैसर्स गजानन फ्राईट कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
39.	020621	मैसर्स डायमंड सुपर ग्रेनाइट एक्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
40.	020850	मैसर्स व्हाइट फेदर्स बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
41.	021137	मैसर्स तथागत बायोटेक एण्ड पॉवर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
42.	021208	मैसर्स मनन एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
43.	021354	मैसर्स एवन सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
44.	021444	मैसर्स कैरियर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
45.	021452	मैसर्स देवयानी रियल एस्टेट लिमिटेड
46.	021883	मैसर्स ब्लोट फेडमेटिक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
47.	021999	मैसर्स बिग स्टार इश्योरेन्स सर्विसेज एण्ड इन्फ्राएस्ट्रेट लिमिटेड
48.	022090	मैसर्स गिरजा नन्दन मार्केटिंग एण्ड लेन्ड डेवलपमेन्ट लिमिटेड
49.	022124	मैसर्स दिव्यांश टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
50.	022577	मैसर्स फारएवर प्रोग्रेसिव फ्युचर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
51.	022590	मैसर्स ब्राड कारपोरेट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

मुकेश कुमार

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

ग्वालियर-474009, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

सं. कर/560(5)/2012/234--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	017796	मैसर्स भद्रमावती डायग्नोसिस प्राईवेट लिमिटेड
2.	020240	मैसर्स फोनिक्स फेसिलिटी मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
3.	017930	मैसर्स सिप 2 सेव टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड
4.	020278	मैसर्स केबीसी कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
5.	007301	मैसर्स पेसिफिक पल्स (इंडिया) लिमिटेड
6.	009529	मैसर्स स्टेलियन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	007205	मैसर्स एवरविन गार्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	006219	मैसर्स भगवान आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
9.	013548	मैसर्स मालिक नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
10.	019900	मैसर्स डीटे कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
11.	017605	मैसर्स जोया होम एप्लाइंस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	43.	008371	मैसर्स क्रिश्चियन इमीनेंट एज्युकेशनल प्राईवेट लिमिटेड
12.	014759	मैसर्स गैलेक्सी विजन लिमिटेड	44.	016007	मैसर्स कल्पना सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	015155	मैसर्स सी-क्यूब वर्ल्ड वाईड इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	45.	017813	मैसर्स श्री गणेश आवास निवास प्राईवेट लिमिटेड
14.	016448	मैसर्स सू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	46.	004764	मैसर्स पूजा एप्लाइंसेज प्राईवेट लिमिटेड
15.	001858	मैसर्स अनिलासंस एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	019646	मैसर्स केलीपर्स इंजीनियर्स एण्ड कन्सट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	017272	मैसर्स अमरित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	48.	014354	मैसर्स चिराग बिल्डर्स एण्ड कन्सट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	019642	मैसर्स सेठी रसायन शाला प्राईवेट लिमिटेड	49.	017742	मैसर्स वर्तिका बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	010874	मैसर्स अलिस इन्फोटेक लिमिटेड	50.	015335	मैसर्स महाराजा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	011132	मैसर्स रितिका फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	010958	मैसर्स लेजरटेक मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
20.	009912	मैसर्स सीएसीसीए हाई-टेक एग्री फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	001568	मैसर्स वसंत स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड
21.	016880	मैसर्स टू शाइन नेटवर्क्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	53.	017650	मैसर्स शैल मेडीक्विच प्राईवेट लिमिटेड
22.	019364	मैसर्स मेडीक्वीस्ट हैल्थ सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	54.	020174	मैसर्स इंदौर ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	008468	मैसर्स पेस डायमेटिक्स लिमिटेड	55.	006443	मैसर्स शालूजा टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	007451	मैसर्स चंबल घाटी हाईब्रिड सीड्स प्राईवेट लिमिटेड	56.	015685	मैसर्स डायनामिक ऑटोकोम्प (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
25.	019919	मैसर्स घर-परिवार रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	57.	011252	मैसर्स कमल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
26.	009805	मैसर्स टेक्सटेल सेनर्जी लिमिटेड	58.	005024	मैसर्स सौनम मार्केटिंग एंड कम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
27.	016195	मैसर्स एस. डी. टेक्नोलॉजी एण्ड कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	002124	मैसर्स एस. एन. पी. इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	012442	मैसर्स एम. पी. स्मॉल इण्डस्ट्रीज प्रोमोशन एण्ड मार्केटिंग अंडर टेकिंग लिमिटेड	60.	014716	मैसर्स बेट्स ट्राकोमिन प्राईवेट लिमिटेड
29.	015317	मैसर्स माया इनोविजन प्राईवेट लिमिटेड	61.	016302	मैसर्स फ्रेन्ड्स फेमिली मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	002596	मैसर्स सौरभ स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड	62.	017168	मैसर्स ए. पी. एम. फ्लूड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
31.	018254	मैसर्स बायोकेयर लाइफसाइंसेज प्राईवेट लिमिटेड	63.	011007	मैसर्स पारेख क्राउन कैप्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	005758	मैसर्स आलोक पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	64.	011972	मैसर्स अल्पा लेब्स (इंडिया) लिमिटेड
33.	016328	मैसर्स कल्पना टेक्नो-क्रैट्स प्राईवेट लिमिटेड	65.	003631	मैसर्स जशवंत प्लानटेशनस प्राईवेट लिमिटेड
34.	017572	मैसर्स कछवाहा टूरिज्म एण्ड ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	66.	008388	मैसर्स एच. के. रिसोर्ट्स लिमिटेड
35.	009394	मैसर्स पिनाकल ओवरसीज (इंडिया) लिमिटेड	67.	015430	मैसर्स बी. एस. अथेसिक्स एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	017400	मैसर्स अभयंक कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	68.	017089	मैसर्स विशाल माइन्स एंड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	017002	मैसर्स कम्युथीवली बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	002568	मैसर्स स्वाइका इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
38.	020577	मैसर्स आइकॉन एकेडमिक सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	70.	019116	मैसर्स स्टैंडर्ड हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
39.	011081	मैसर्स भिलाई मोटर कार कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	71.	018356	मैसर्स टक्स्टोन सॉफ्टवेक प्राईवेट लिमिटेड
40.	001374	मैसर्स भारत स्ट्रक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड	72.	004470	मैसर्स लक्ष्मी जूयुमेटिक्स लिमिटेड
41.	002791	मैसर्स आर. आर. चेम प्राईवेट लिमिटेड			
42.	005429	मैसर्स मोरवी टाईल्स एण्ड स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
73.	005629	मैसर्स सब्बू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	102.	009343	मैसर्स धरम लक्ष्मी फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
74.	019773	मैसर्स वाइन टेलर्स प्राईवेट लिमिटेड	103.	014816	मैसर्स गोल्ड जेली कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
75.	017916	मैसर्स एबीएमएस हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड	104.	012096	मैसर्स एस. एस. क्लासिक रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
76.	018345	मैसर्स लक्ष्मण एण्ड ब्रदर्स टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	105.	001586	मैसर्स होल्ज फ्लाइयर्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	018653	मैसर्स लिलानिस रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	106.	017070	मैसर्स जखोडिया माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड
78.	016358	मैसर्स माँ दुर्गा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	107.	019892	मैसर्स एडवर्ड स्टोक ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	013236	मैसर्स रूप ज्योति विद्या एवम् अनुसंधान केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड	108.	000421	मैसर्स हिंद ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	002651	मैसर्स बंसी प्रेस प्राईवेट लिमिटेड	109.	009246	मैसर्स ब्लोसम कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	012145	मैसर्स अदिति नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	110.	020458	मैसर्स ब्लू मून टुडे एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
82.	020102	मैसर्स हमीदिया टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	111.	007861	मैसर्स नेचुरल पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	012244	मैसर्स टेलेन्ट इंडिया अकादमी प्राईवेट लिमिटेड	112.	016422	मैसर्स जोरबा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
84.	019025	मैसर्स मेनसुर क्रोप साइंस प्राईवेट लिमिटेड	113.	014119	मैसर्स एलोन्स हेल्थकेयर लिमिटेड
85.	008401	मैसर्स सूर्या हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	114.	014750	मैसर्स राजपूत इंडस्ट्रीज सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
86.	014372	मैसर्स लोक ऑटोमोटिव मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड	115.	015074	मैसर्स श्री इशार इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	016519	मैसर्स नोबल क्लोरोचेम प्राईवेट लिमिटेड	116.	018186	मैसर्स चिरायू आयुर्वेद ग्वालियर प्राईवेट लिमिटेड
88.	011339	मैसर्स कॉमटेक नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	117.	004203	मैसर्स कॉस्मिक कलर प्रीसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	020364	मैसर्स गर्ग एग्रो-फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	118.	014844	मैसर्स ग्यान गंगा पब्लिक स्कूल्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	004938	मैसर्स करन बिल्डर्स एंड कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	119.	006252	मैसर्स एसजीसी मल्टीबिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
91.	016201	मैसर्स जिनेसिस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	120.	005993	मैसर्स पवर वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	020157	मैसर्स प्रोग्रेसिव आइटीएस टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	121.	019989	मैसर्स साया कन्स्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स लिमिटेड
93.	010990	मैसर्स सूनीस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	014281	मैसर्स रोदीप इन्फोर्मेशन एंड कम्प्यूटेशन प्राईवेट लिमिटेड
94.	016599	मैसर्स सन इंटरटेनमेंट इवेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	015003	मैसर्स रोयल लिक्वोर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
95.	020286	मैसर्स श्री कनका दुर्गा कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	124.	008049	मैसर्स सिद्धार्थ गल्वा स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	016980	मैसर्स अक्षरा सार्थक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	125.	020503	मैसर्स मिडेक्स सिमको एजर्नी प्राईवेट लिमिटेड
97.	006295	मैसर्स हिमालया पॉलट्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	126.	011030	मैसर्स जय प्रकाश ड्वेलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	020267	मैसर्स ए एस ए फाइनेंसियल कन्सलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड	127.	003769	मैसर्स कामधेनू वन विकास एण्ड निर्मन प्राईवेट लिमिटेड
99.	009387	मैसर्स मिस एस. एन. मंडलोई मेमोरियल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड	128.	017656	मैसर्स फलकोन हर्बल प्राईवेट लिमिटेड
100.	019018	मैसर्स श्रीनाथ शुगर्स प्राईवेट लिमिटेड	129.	007410	मैसर्स होरीजोन डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	019154	मैसर्स मासकॉन फार्माक्यूटिकल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	130.	002968	मैसर्स अग्रवाल फोरेस्ट एण्ड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
			131.	005971	मैसर्स छापरिया ऑइल एण्ड फेट्स लिमिटेड

1	2	3
132.	006978	मैसर्स महोकोशल प्लास्ट एण्ड कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	009681	मैसर्स जी. एच. फाइनैसियल प्राईवेट लिमिटेड
134.	012050	मैसर्स स्टीलमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड

मुकेश कुमार
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

ग्वालियर-474009, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

सं. कर/560(5)/2012/236--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	008784	मैसर्स भोपाल टेलि कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	016591	मैसर्स ए. एफ. फैशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	020112	मैसर्स नालन्दा हॉस्पिटलियी प्राईवेट लिमिटेड
4.	003984	मैसर्स बांके वैल सोया प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	007927	मैसर्स श्रीराम चित्र प्राईवेट लिमिटेड
6.	018943	मैसर्स रतलाम रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
7.	015405	मैसर्स रामकृष्ण सप्लायर प्राईवेट लिमिटेड
8.	001906	मैसर्स कैलाश प्रोटीन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	001271	मैसर्स मालवा मटल पावडर लिमिटेड
10.	001857	मैसर्स मध्य प्रदेश लैडर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11.	017594	मैसर्स एसीइकेयर मेडिक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	008420	मैसर्स छत्तीसगढ़ पम्पस प्राईवेट लिमिटेड
13.	016683	मैसर्स गुड हेल्थ न्यूट्रस्युटिकल्स एंड कॉस्मेटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	020098	मैसर्स हसदेव रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
15.	013572	मैसर्स आयुष्जय कॉमडेक्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	018022	मैसर्स उमग एनर्जी एंड ज्वाइंट वेन्चर्स लिमिटेड

1	2	3
17.	017690	मैसर्स टेक्नो कॉन्ट्रेक्टर्स एंड कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	012130	मैसर्स अन्नपूर्णा इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रे इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
19.	010354	मैसर्स स्कॉयलेब पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	019656	मैसर्स सिद्धार्थ पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
21.	016369	मैसर्स नूर-ई-सिग्मा ट्रान्सपोर्टेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
22.	019272	मैसर्स ड्रीम हर्बल प्राईवेट लिमिटेड
23.	016903	मैसर्स ब्लू डायमंड स्टील एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड
24.	016153	मैसर्स के. के. सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	018125	मैसर्स ए एस के फिनकॉम सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
26.	019645	मैसर्स पार्थ भूमन्यु रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
27.	017288	मैसर्स रूबी सिग्नेचर ट्रेनिंग एंड मेनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
28.	016947	मैसर्स ई-सर्वे कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	011176	मैसर्स मैक्सीकोन फास्फेट्स लिमिटेड
30.	014380	मैसर्स जीएमपी मेडिकेट प्राईवेट लिमिटेड
31.	005631	मैसर्स साबू पेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
32.	005211	मैसर्स ब्रिज बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	011608	मैसर्स फोरवे मल्टीलेवल प्राईवेट लिमिटेड
34.	012752	मैसर्स विश्वासकृपा कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
35.	006954	मैसर्स मीटी फाइनैस एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
36.	011724	मैसर्स मदन क्विक फोटो प्राईवेट लिमिटेड
37.	010996	मैसर्स मुक्ता सन्धी भण्डार प्राईवेट लिमिटेड
38.	009941	मैसर्स नर्मदा पोलीमर्स इंडिया लिमिटेड
39.	016586	मैसर्स ईजी ईरीगेशन प्राईवेट लिमिटेड
40.	017450	मैसर्स बैजनाथ सारस्वत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
41.	018826	मैसर्स आईएसी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
42.	018237	मैसर्स एफसी फिन ब्यूटी केयर प्राईवेट लिमिटेड
43.	009512	मैसर्स स्वदेश होटल एंड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
44.	011041	मैसर्स जय ज्वाला एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
45.	020394	मैसर्स स्पर्श पावर एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
46.	017615	मैसर्स शिवनाथ रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
47.	007273	मैसर्स रायपुर फ्राग्रान्सेज प्राईवेट लिमिटेड
48.	019079	मैसर्स एपीएस ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड
49.	020018	मैसर्स एसआईएम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
50.	017976	मैसर्स एसबीएस एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
51.	015154	मैसर्स इन्दौर एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
52.	013895	मैसर्स क्षिप्रा एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
53.	014730	मैसर्स खजुराहो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	007711	मैसर्स राजश्री पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	005735	मैसर्स प्रसीअस ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड
56.	016571	मैसर्स ओल्डफोक्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
57.	016052	मैसर्स श्रीविध्या निकेतन गुरुकुल प्राईवेट लिमिटेड
58.	018035	मैसर्स शिवेश सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
59.	004822	मैसर्स छत्तीसगढ़ इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
60.	017982	मैसर्स मूनस्टार इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	007644	मैसर्स फलाईफोट कम्प्यूटर एम्ब्राईडरी प्राईवेट लिमिटेड
62.	011786	मैसर्स फ्रन्टीयर फिनलीज लिमिटेड
63.	019037	मैसर्स एस. एस. एग्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड
64.	005261	मैसर्स कामधेनु टूरिस्ट प्राईवेट लिमिटेड
65.	007200	मैसर्स साबू इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	013145	मैसर्स एफको रेमिडीज इंडिया लिमिटेड
67.	017974	मैसर्स सतप्रीत कोटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	005203	मैसर्स शैफाली इंजीनियर एंड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड

मुकेश कुमार
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

ग्वालियर-474009, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

सं. कर/560 (5)/2012/238--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	015892	मैसर्स मेटाफाईन मेटालर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	021498	मैसर्स बेबीलान पॉवर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	017990	मैसर्स ट्रेवल नाईन प्राईवेट लिमिटेड
4.	020087	मैसर्स सैनर्जी माईनडस्केप प्राईवेट लिमिटेड

आर. के. साहू
सहायक शासकीय समापक
छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दीप ट्वीस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

सं. आर.ओ.सी./560/एस.टी.ए./2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के समाप्त होने पर मैसर्स दी ट्वीस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लक्ष्मी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 20 सितम्बर 2012

सं. 761/560(5)/एफटीई/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लक्ष्मी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. स्वामिदासन
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इंगमा कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कटक-753014, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

सं.आरओसी/560(5)/3710--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इंगमा कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 12th September 2012

No. A-20016/06/2012-Admn.I—Consequent upon her nomination to CSSS Cadre of UPSC on her regular promotion to the post of Steno Grade 'C' (PA) of CSSS for the Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/1/2012-CS.II(C) (Vol.II) dated 3rd August, 2012, the President is pleased to appoint Smt. V. Sukumary Nair, a regular Stenographer Grade 'D' of CSSS Cadre of Ministry of Civil Aviation, in the grade of Personal Assistant of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,600/- in the Office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 31st August, 2012, until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

No. A-19017/05/2012-Admn.I—Consequent upon her nomination to CSSS Cadre of UPSC on her regular promotion to the post of Steno Grade 'A' & 'B' merged (PS) of CSSS for the Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Jaskiran Khalsa, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Commerce & Industry, in the grade of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 4th September, 2012, until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

No. A-19017/02/2012-Admn.I—Consequent upon his nomination to CSSS Cadre of UPSC on his regular promotion to the post of Steno Grade 'A' & 'B' merged (PS) of CSSS for the Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Shri S. Shankaran, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Communications & Information Technology, in the grade of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 31st August, 2012, until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

No. A-19017/04/2012-Admn.I—Consequent upon her nomination to CSSS Cadre of UPSC on her regular promotion to the post of Steno Grade 'A' & 'B' merged (PS) of CSSS for the Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A)

dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Veera Lakshmi Bokka, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting, in the grade of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 3rd September, 2012, until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

No. A-19017/03/2012-Admn.I—Consequent upon his nomination to CSSS Cadre of UPSC on his regular promotion to the post of Steno Grade 'A' & 'B' merged (PS) of CSSS for the Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Shri Jai Bhagwan Chopra, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Civil Aviation, in the grade of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Office of Union Public Service Commission w.e.f. the afternoon of 31st August, 2012, until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

No. A-19017/01/2012-Admn.I—Consequent upon her nomination to CSSS Cadre of UPSC on her regular promotion to the post of Steno Grade 'A' & 'B' merged (PS) of CSSS for the Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Gulshan Katyal, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Urban Development, in the grade of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 30th August, 2012, until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

The 13th September 2012

No. A-19017/06/2012-Admn.I—Consequent upon her nomination to CSSS Cadre of UPSC on her regular promotion to the post of Steno Grade 'A' & 'B' merged (PS) of CSSS for the Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Rajni Puria, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Labour & Employment, in the grade of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 5th September, 2012, until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

The 4th October 2012

No. A-35018/02/2009-Admn.II—In Continuation to this Office Notification of even number dated 08.06.2012, the period of ad hoc deputation of Shri Awadhesh Thakur, Steno 'C' UPSC to the post of Staff Officer to Secretary, UPSC, in the revised pay structure of PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- (Group-B, Gazetted) is extended further for a period of three months w.e.f. 30.08.2012 to 29.11.2012 or till further orders, whichever is earlier, with technical break on 29.08.2012.

This issue with the approval of the Competent Authority.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

No. A-35018/02/2009-Admn.II(Pt.)—In Continuation to this Office Notification of even number dated 27.06.2012 and pursuant to the approval of the Competent Authority, the period of ad hoc deputation of Shri Rajesh Joshi, Steno 'C' UPSC to the post of Staff Officer to Hon'ble Chairman, UPSC, in the revised pay structure of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Group-A, Gazetted) is extended further for a period of three months w.e.f. 04.10.2012 to 03.01.2013 or till further orders, whichever is earlier, with technical break on 03.10.2012 (as 02.10.2012 is a closed*holiday).

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 27th September 2012

No. DP/Pers.I/2012/0079/3/29/2008—The President is pleased to appoint Shri Hemant Priyadarshy, IPS (RJ : 1992) as Joint Director in the Central Bureau of Investigation, New Delhi with effect from the forenoon of 15.09.2012 upto 06.08.2015 or till further orders, whichever event takes place earlier.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/Pers.I/2012/0080/3/100/2004—Shri Saurabh Tripathi, IPS (MT : 1997) has relinquished the charge of the office of Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation, Policy Division, New Delhi with effect from the afternoon of 01.09.2012 on completion of approved tenure at Centre.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

The 1st October 2012

No. DP/Pers.I/2012/0081/3/55/93—Shri R. S. Panwar, relinquished the charge of Addl. Superintendent of Police,

Central Bureau of Investigation, with effect from the afternoon of 30.09.2012 on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 27th September 2012

No. O.II.3835/10-Pers-MOs—Consequent on acceptance of his resignation by the competent authority, Dr. Sushant Chandel, (IRLA-8303), Medical Officer, 182 Bn., CRPF relinquished the charge of his post on the forenoon of 23.05.2012. Accordingly his name stands deleted from the rolls of the Force w.e.f. 23.05.2012 (F/N).

B. S. CHAUHAN
DIGP (Pers.)

DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 3rd October 2012

No. E-16015/PK-IB/2012/Pers.I/445—Consequent upon repatriation from deputation, the following officer has been taken on the strength of CISF/Unit with effect from the date as shown against his name :—

Name of the Officer, Rank, Name of Department where officer was on deputation & The officer taken on the strength of CISF/Unit

Shri Pawan Kumar, Asstt. Comdt./Fxe, IB New Delhi & 4th Res. Bn. Jaipur w.e.f. 01.08.2012 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT (LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 28th September 2012

No. 5/1/2012-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001 = 100 increased by 2 points and stood at 214 (two hundred fourteen) for the month of August, 2012.

S. S. NEGI
Dir.

DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION) DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

New Delhi-110001, the 26th September 2012

No. A-19011/69/90/A-6/A-II—The President is pleased to appoint Sh. R. Karupiah, an officer of Junior

Administrative Grade of Indian Inspection Service (Group 'A') to the Senior Administrative Grade of the service as Deputy Director General (QA) in Pay Band PB-4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- from the date of assumption of charge i.e. 16.08.2012 (A.N.).

K. K. SAXENA
Dy. Dir. (Admn.)
for Directorate General of Supplies & Disposal

No. A-19011/71/90A-6/A-II—The President is pleased to appoint Sh. H. R. Sharma, an officer of Junior Administrative Grade of Indian Inspection Service (Group 'A') to the Senior Administrative Grade of the service as Deputy Director General (QA) in Pay Band PB-4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- from the date of assumption of charge i.e. 17.08.2012 (F.N.).

K. K. SAXENA
Dy. Dir. (Admn.)
for Directorate General of Supplies & Disposal

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 28th September 2012

No. A-19011/636/2012-Estt. A/489—On the recommendation of Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri T. K. Sonarkar, to the post of Senior Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 07.09.2012 (F.N.).

S. S. CHAUDHARY
Senior Administrative Officer
for Controller General

No. A-19012/495/2010-Estt. A/476—On the recommendation of Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Vijaya Kumar Jami, to the post of Deputy Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines, RODL, Ajmer w.e.f. 06.07.2012 (F.N.).

S. S. CHAUDHARY
Senior Administrative Officer
for Controller General

The 1st October 2012

No. A-19011/639/2012-Estt. A/485—On the recommendation of Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Kalmata Mallikarjuna Kubenraiah, to the post of Senior Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Goa w.e.f. 07.09.2012 (F.N.).

S. S. CHAUDHARY
Senior Administrative Officer
for Controller General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 27th September 2012

No. PD/7(22)/2012-R-IV/8290—The President is pleased to appoint Shri K. V. Sudev, Scientific Assistant/E Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2010, in an officiating capacity until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

The 28th September 2012

No. PD/2(11)/2011-R-IV/8293—The President is pleased to appoint the under mentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the posts, in the Pay Band and Grade Pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders :—

Sl. No.	Name	Appointed as	Pay Band (Rs.)	Date of appointment
1.	Shri Nitin Ramesh Kakade	Scientific Officer 'C'	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (GP)	27.04.2012 (FN)
2.	Shri Rahul Kumar Chaudhary	Scientific Officer 'C'	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (GP)	22.05.2012 (FN)
3.	Dr. (Smt.) Shailaja Sanjay Madake	Scientific Officer 'C'	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (GP) + NPA	04.09.2012 (FN)
4.	Dr. (Smt.) Aruna Amit Khatri	Scientific Officer 'C'	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (GP) + NPA	06.09.2012 (FN)

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD)

Mumbai-400094, the 28th September 2012

No. AERB/Adm/1/77/3899—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers of the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) on promotion to the next higher grade shown against each in the same Board with effect from forenoon of 01.07.2012 until further orders :—

Sl. No.	Name & Designation	Grade of Promotion	Pay Band (Rs.)
1	2	3	4
1.	Smt. Reeta Rani Malhotra, Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	PB-4: Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/-

1	2	3	4
2.	Dr. R. M. Nehru, Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	PB-4: Rs. 37,400— 67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/-
3.	Dr. Pankaj Kumar Dash Sharma, Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	PB-4: Rs. 37,400— 67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/-
4.	Dr. Dinakrushna Mohapatra, Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	PB-4: Rs. 37,400— 67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/-
5.	Dr. C. Senthil Kumar, Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	PB-4: Rs. 37,400— 67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/-

SANGEETA R. NAKHWA
Administrative Officer-III

VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 19th September 2012

No. VECC/Prom (July)/2012/5206—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (F) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the same centre in an officiating capacity with effect from July 01, 2012 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Present Post	P.B. + G.P. (Rs.)
1.	Dr. (Smt.) Gargi Chaudhuri	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 7,600/-
2.	Shri Jayanta Debnath	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 7,600/-
3.	Dr. Dirtha Sanyal	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 7,600/-
4.	Shri Manir Ahammed	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 7,600/-

ANJAN KUMAR PATTRA
Asstt. Personnel Officer (Estt.)

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 27th September 2012

No. DCSEM/A/2(199)/2011-Rectt./663—The President is pleased to appoint the following Officers in the Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy on their promotion to the grades and dates mentioned below until further orders :—

Sl. No.	Name	Grade on Promotion	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)	Date of Assumption of charge
1	2	3	4	5	6
	(Shri/Smt.)				
1.	A. S. Ansari	SO/E	Rs. 15,600—39,100/-	Rs. 7,600/-	01.07.2011 (FN)

1	2	3	4	5	6
2.	J. D. Yevale	SO/E	Rs. 15,600—39,100/-	Rs. 7,600/-	01.07.2011 (FN)
3.	R. Rajeev Kumar	SO/E	Rs. 15,600—39,100/-	Rs. 7,600/-	01.07.2011 (FN)
4.	A. G. Rajendra Babu	TO/E	Rs. 15,600—39,100/-	Rs. 7,600/-	01.07.2011 (FN)
5.	Santosh Kumar	SO/D	Rs. 15,600—39,100/-	Rs. 6,600/-	01.07.2011 (FN)
6.	Ravi Prakash Pareek	SO/D	Rs. 15,600—39,100/-	Rs. 6,600/-	01.07.2011 (FN)

B. JAGAN MOHAN RAO
Administrative Officer-III

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 28th September 2012

No. DPS/07019/Rectt./13277—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Shri A. K. Sharma, Sr. Storekeeper [Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/-], Stock Verification Team, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in the Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (AMDER), Central Region, Nagpur, w.e.f. the forenoon of 12th September, 2012 until further orders.

CATHERINE RAJ
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 28th September 2012

No. NFC/PAR-I/04/06/972—In continuation to Notification No. NFC/PAR-I/04/06/699 dated 31.07.2012, the ad hoc appointment of Shri S. Koteswar Rao, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- has been extended upto 30.11.2012 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI
Administrative Officer-III

GENERAL SERVICES ORGANISATION

Kalpakkam-603102, the 26th September 2012

No. GSO/17(27)/2012-R/635—In supersession of earlier Notification No. GSO/17(27)/2007-R/21/446 dated

29.07.2009 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being a Gazetted Officer of the Government, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his/her jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table :—

TABLE

Column (1)	Column (2)
Designation of the Officer	Categories of Public Premises & local limits of jurisdiction
Smt. S. Jayashree, Administrative Officer-III General Service Organisation, Department of Atomic Energy, Kalpakkam-603102, Kancheepuram District, Tamil Nadu.	Premises in Kalpakkam and Anupuram, Thirukkalukundran Taluk, Kancheepuram District, Tamilnadu belonging to or under the control of Department of Atomic Energy Government of India.

S. S. GONDANE
Administrative Officer-III

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 1st October 2012

No. A-20016/01/79-E-II (Vol.-II)—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Jhingran, Section Officer stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 30.09.2012.

J. MINZ
Dy. Dir. of Admn.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Almasa Computers Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd October 2012

No. RoC/Delhi/560(5)/20506—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Almasa Computers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. B. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chandigarh, the 28th September 2012

No. RoC/560(5)/FTE/2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	31817	M/s. Options Abroad Education Private Limited
2.	32076	M/s. Neuron Softnet Technologies Private Limited
3.	03674	M/s. New Delight Financiers Private Limited
4.	30569	M/s. A-Tech Multiplex Private Limited
5.	30567	M/s. A-Tech Entertainment Private Limited
6.	30566	M/s. A-Tech Taksonz Infrastructure Private Limited
7.	32400	M/s. Angus Space Builders Private Limited
8.	20819	M/s. Gurukirpa Kanda Cold Storage Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chandigarh, the 28th September 2012

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	32508	M/s. Nimbus Organics Private Limited
2.	27780	M/s. Golden Pacific Computer Systems Private Limited
3.	30758	M/s. Amartex Integrated Textile Park Limited
4.	18384	M/s. Goldage Farms Limited
5.	32231	M/s. Impinge Solutions Limited
6.	29061	M/s. Leela Netmart Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Gwalior-474009, the 9th October 2012

No. RoC-GC/u/s.560(5)/2012/1232—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	002410	M/s. Techmark Engineers Private Limited
2.	003632	M/s. Majo Agro Forestry Private Limited
3.	003725	M/s. Migma Packtron Private Limited
4.	005756	M/s. Jayam Pharmaceuticals Private Limited
5.	005921	M/s. Paragon Computers Private Limited
6.	006054	M/s. Dhananjay Confectioneries Private Limited
7.	007202	M/s. Dhar Plasticizers Private Limited
8.	008849	M/s. Anupama Tacks Private Limited
9.	009110	M/s. Shrinathji Drugs & Chemicals Private Limited
10.	009667	M/s. Sahyogi Finance & Commercial Private Limited
11.	010824	M/s. Premashrya Financial & Investment Services Private Limited
12.	011751	M/s. Shree Darshan Ware Housing Private Limited
13.	011768	M/s. Arya Aushadhi Pharmaceuticals (India) Private Limited
14.	011815	M/s. Harsh Mass Media Private Limited
15.	011951	M/s. Ujjain Stone Cure Clinic Private Limited
16.	012445	M/s. Tambi Finsec Private Limited
17.	012538	M/s. Singhal Infotech Private Limited
18.	013909	M/s. Yiled Geotech Private Limited
19.	014426	M/s. Sound Consultants (Indore) Limited
20.	014938	M/s. Nagod Super Channels Private Limited
21.	015879	M/s. Globotech Engineering Services Private Limited

1	2	3
22.	015890	M/s. Eminent Mercantile Private Limited
23.	015978	M/s. Shree Parshvanath Construction & Builders Private Limited
24.	016633	M/s. Sahai (India) Marketing Company Private Limited
25.	017628	M/s. Life Suraksha Multi Insurance Services Private Limited
26.	017767	M/s. Adi Metals Private Limited
27.	017785	M/s. S. N. Bio-Tech Private Limited
28.	017883	M/s. Emerald Exim Private Limited
29.	018202	M/s. Arhtav Solution Private Limited
30.	018222	M/s. Livette Ace Eximpressions Private Limited
31.	018608	M/s. Shubh Life Solutions & Services Private Limited
32.	018687	M/s. Dreams Ideal Limitless Generation Private Limited
33.	019381	M/s. Parivar Care Private Limited
34.	019455	M/s. Farmer Escort Private Limited
35.	020107	M/s. Chhattisgarh Urja Vikas Private Limited
36.	020336	M/s. MLV Real Estate & Allied Limited
37.	020494	M/s. Uniforce India Private Limited
38.	020604	M/s. Gajanan Freight Carrier Private Limited
39.	020621	M/s. Diamond Super Granite Extraction Private Limited
40.	020850	M/s. White Feather Biotech Private Limited
41.	021137	M/s. Tathagat Biotech & Power Industries Limited
42.	021208	M/s. Manan Agencies Private Limited
43.	021354	M/s. A-One Cement Private Limited
44.	021444	M/s. Carrier Marketing Private Limited
45.	021452	M/s. Devyani Real Estate Limited
46.	021883	M/s. Blot Fadmatic Company Private Limited
47.	021999	M/s. Big Star Insurance Services and Infraestate Limited
48.	022090	M/s. Girja Nandan Marketing & Land Development Limited

1	2	3
49.	022124	M/s. Divyansh Technology Private Limited
50.	022577	M/s. Forever Progressive Future Marketing Private Limited
51.	022590	M/s. Brad Corporate Services Private Limited

MUKESH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Madhya Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Gwalior-474009, the 9th October 2012

No. RoC-GC/u/s 560(5)/2012/1234—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies are mentioned in Annexure (A) & (B) have this day been struck off from the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of Company
1	2	3
1.	017796	M/s. Padmavati Diagnosis Private Limited
2.	020240	M/s. Phoenix Facility Management Private Limited
3.	017930	M/s. SIP 2 Save Telecom Private Limited
4.	020278	M/s. KBC Commercial Private Limited
5.	007301	M/s. Pacific Pulse (India) Limited
6.	009529	M/s. Stallion Foods Private Limited
7.	007205	M/s. Everwin Garments Private Limited
8.	006219	M/s. Bagwan Ice & Cold Storage Private Limited
9.	013548	M/s. Malik Nursing Home Private Limited
10.	019900	M/s. Deity Consultants Private Limited
11.	017605	M/s. Zoya Home Appliances (India) Private Limited
12.	014759	M/s. Galaxy Vision Limited
13.	015155	M/s. C-Cube World Wide Infotech Private Limited
14.	016448	M/s. Suu Infrastructure Private Limited
15.	001858	M/s. Anilasons & Associates Private Limited

1	2	3
16.	017272	M/s. Amrit Infrastructure Private Limited
17.	019642	M/s. Sethi Rasayan Shala Private Limited
18.	010874	M/s. Alis Infotech Limited
19.	011132	M/s. Ritika Foods Private Limited
20.	009912	M/s. Cacca Hi-Tech Agro Foods Limited
21.	016880	M/s. True Shine Networks Marketing Private Limited
22.	019364	M/s. Mediquest Health Services Private Limited
23.	008468	M/s. Pace Datamatics Limited
24.	007451	M/s. Chambal Ghati Hybrid Seeds Private Limited
25.	019919	M/s. Ghar-Parivar Real Estate Limited
26.	009805	M/s. Textel Synergy Limited
27.	016195	M/s. S. D. Technology & Computers Private Limited
28.	012442	M/s. M. P. Small Industries Promotion & Marketing Under Taking Limited
29.	015317	M/s. Maya Innovision Private Limited
30.	002596	M/s. Saurabh Spinners Private Limited
31.	018254	M/s. Biocare Lifesciences Private Limited
32.	005758	M/s. Alok Papers Private Limited
33.	016328	M/s. Kalpana Techno-Crates Private Limited
34.	017572	M/s. Kachhawaha Tourism & Transport Private Limited
35.	009394	M/s. Pinnacle Overseas (India) Limited
36.	017400	M/s. Abhyank Construction Private Limited
37.	017002	M/s. Kamptheewale Builders & Developers Private Limited
38.	020577	M/s. Icon Academic Services Private Limited
39.	011081	M/s. Bhilai Motor Car Company Private Limited
40.	001374	M/s. Bharat Structurals Private Limited
41.	002791	M/s. R. R. Chem Private Limited
42.	005429	M/s. Morvi Tiles & Stones Private Limited
43.	008371	M/s. Christian Eminent Educational Private Limited

1	2	3
44.	016007	M/s. Kalpana Systems Private Limited
45.	017813	M/s. Shri Ganesh Awas Niwas Private Limited
46.	004764	M/s. Pooja Appliances Private Limited
47.	019646	M/s. Calipers Engineers & Contractors Private Limited
48.	014354	M/s. Chirag Builders & Contractors Private Limited
49.	017742	M/s. Vartika Builders Private Limited
50.	015335	M/s. Maharaja Motors Private Limited
51.	010958	M/s. Lasertech Multimedia Private Limited
52.	001568	M/s. Vasant Studios Private Limited
53.	017650	M/s. Shail Mediequip Private Limited
54.	020174	M/s. Indore Automobiles Private Limited
55.	006443	M/s. Saluja Tyres Private Limited
56.	015685	M/s. Dynamic Autocomp (India) Private Limited
57.	011252	M/s. Kamal Import & Export (India) Private Limited
58.	005024	M/s. Sonam Marketing & Communication Private Limited
59.	002124	M/s. S. N. P. Engineering Works Private Limited
60.	014716	M/s. Bets Tracomini Private Limited
61.	016302	M/s. Friends Family Marketing Private Limited
62.	017168	M/s. A. P. M. Fluid Power Private Limited
63.	011007	M/s. Parekh Crown Caps Limited
64.	011972	M/s. Alpa Labs (India) Limited
65.	003631	M/s. Jaswant Plantations Private Limited
66.	008388	M/s. H. K. Resorts Limited
67.	015430	M/s. V. S. Adhesives & Chemicals Private Limited
68.	017089	M/s. Vishal Mines & Minerals Private Limited
69.	002568	M/s. Swaika Enterprises Private Limited
70.	019116	M/s. Standard Healthcare Private Limited
71.	018356	M/s. Touchstone Softech Private Limited
72.	004470	M/s. Laxmi Pneumatics Limited

1	2	3
73.	005629	M/s. Saboo Agriculture Implements Private Limited
74.	019773	M/s. Wine Tailors Private Limited
75.	017916	M/s. ABMS Health Care Private Limited
76.	018345	M/s. Laxman & Brothers Tea Company Private Limited
77.	018653	M/s. Lilanis Real Estate Private Limited
78.	016358	M/s. Maa Durga Real Estate Private Limited
79.	013236	M/s. Roop Jyoti Vidya Evam Anusandhan Kendra Private Limited
80.	002651	M/s. Bansi Press Private Limited
81.	012145	M/s. Aditi Networks Private Limited
82.	020102	M/s. Hamidia Tours & Travels Private Limited
83.	012244	M/s. Talent India Academy Limited
84.	019025	M/s. Mensur Crop Science Private Limited
85.	008401	M/s. Surya Herbals Private Limited
86.	014372	M/s. Lok Automotive Machines Private Limited
87.	016519	M/s. Noble Chlorochem Private Limited
88.	011339	M/s. Comtech Networks Private Limited
89.	020364	M/s. Garg Agro-Foods Private Limited
90.	004938	M/s. Karan Builders & Colonisers Private Limited
91.	016201	M/s. Genesis Services Private Limited
92.	020157	M/s. Progressive ITs Technologies Private Limited
93.	010990	M/s. Unisis Chemicals Private Limited
94.	016599	M/s. Sun Entertainment Events Private Limited
95.	020286	M/s. Shri Kanaka Durga Construction Private Limited
96.	016980	M/s. Akshara Saarthak Foods Private Limited
97.	006295	M/s. Himalaya Poultry Farms Private Limited
98.	020267	M/s. A. S. A. Financial Consultancy Private Limited
99.	009387	M/s. MIS S. N. Mandloi Memorial Hospital Private Limited

1	2	3
100.	019018	M/s. Shrinath Sugars Private Limited
101.	019154	M/s. Mascon Pharmaceuticals India Limited
102.	009343	M/s. Dharam Laxmi Finlease Private Limited
103.	014816	M/s. Gold Jelly Company Private Limited
104.	012096	M/s. S. S. Classic Real Estate Private Limited
105.	001586	M/s. Holz Flyers Private Limited
106.	017070	M/s. Jakhodia Mining Private Limited
107.	019892	M/s. Advorld Stock Brokers Private Limited
108.	000421	M/s. Hind Traders Private Limited
109.	009246	M/s. Blossom Cosmetics Private Limited
110.	020458	M/s. Blue Moon Today Estate Private Limited
111.	007861	M/s. Natural Paints Private Limited
112.	016422	M/s. Zorba Infotech Private Limited
113.	014119	M/s. Allons Healthcare Limited
114.	014750	M/s. Rajput Industrial Security Services Private Limited
115.	015074	M/s. Shree Ishar Impex Private Limited
116.	018186	M/s. Chirayu Ayurved Gwalior Private Limited
117.	004203	M/s. Cosmic Colour Precursors Private Limited
118.	014844	M/s. Gyan Ganga Public Schools Private Limited
119.	006252	M/s. SGC Multi Business Private Limited
120.	005993	M/s. Pawan Wires Private Limited
121.	019989	M/s. Saya Construction and Builders Limited
122.	014281	M/s. Rodeep Information and Communication Private Limited
123.	015003	M/s. Royal Liquor (India) Private Limited
124.	008049	M/s. Siddharth Galva Steels Limited
125.	020503	M/s. Midex Syemco Energy Private Limited
126.	011030	M/s. Jai Prakash Dwellings Private Limited
127.	003769	M/s. Kamdhenu Van Vikas & Nirman Private Limited

1	2	3
128.	017656	M/s. Falcon Herbal Private Limited
129.	007410	M/s. Horizon Dealers Private Limited
130.	002968	M/s. Agrawal Forest & Agro Industries Private Limited
131.	005971	M/s. Chhaparia Oil & Fats Limited
132.	006978	M/s. Mahakoshal Plast & Containers Private Limited
133.	009681	M/s. G. H. Financials Private Limited
134.	012050	M/s. Steelmen Distributors Limited

MUKESH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Madhya Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Gwalior-474009, the 9th October 2012

No. RoC-GC/u/s. 560(5)/2012/1236—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

S. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	008784	M/s. Bhopal Tele Communications Private Limited
2.	016591	M/s. A. F. Fashion Private Limited
3.	020112	M/s. Nalanda Hospitality Private Limited
4.	003984	M/s. Banke Well Soya Products Private Limited
5.	007927	M/s. Shree Ram Chitra Private Limited
6.	018943	M/s. Ratlam Real Estate Private Limited
7.	015405	M/s. Ramkrishn Supplier Private Limited
8.	001906	M/s. Kailash Proteins Private Limited
9.	001271	M/s. Malwa Metal Powder Limited
10.	001857	M/s. Madhya Pradesh Leather Development Corporation Limited
11.	017594	M/s. Acecare Medics Private Limited
12.	008420	M/s. Chhattisgarh Pumps Private Limited

1	2	3
13.	016683	M/s. Good Health Nutraceuticals and Cosmeceuticals Private Limited
14.	020098	M/s. Hasdeo Real Estate Private Limited
15.	013572	M/s. Ayushajay Comdex Private Limited
16.	018022	M/s. Umang Energy and Joint Ventures Limited
17.	017690	M/s. Techno Contractors and Consultants Private Limited
18.	012130	M/s. Annapurna Infrastructure and Agro Industry Limited
19.	010354	M/s. Skylab Paper Products Private Limited
20.	019656	M/s. Siddharth Publication Private Limited
21.	016369	M/s. Noor-E-Sigma Transportation Services Private Limited
22.	019272	M/s. Dream Herbal Private Limited
23.	016903	M/s. Blue Diamond Steel and Power Private Limited
24.	016153	M/s. K. K. Solvex Private Limited
25.	018125	M/s. ASK Fincon Services Private Limited
26.	019645	M/s. Parth Bhumanyu Real Estate Private Limited
27.	017288	M/s. Ruby Signature Training and Management Private Limited
28.	016947	M/s. E-Serve Consultants Private Limited
29.	011176	M/s. Mexican Phosphates Limited
30.	014380	M/s. GMP Meditech Private Limited
31.	005631	M/s. Saboo Paints Company Private Limited
32.	005211	M/s. Brij Builders & Promoters Private Limited
33.	011608	M/s. Fourway Multilevel Private Limited
34.	012752	M/s. Vishwashkripa Construction Company India Limited
35.	006954	M/s. Miti Finance and Investment Private Limited
36.	011724	M/s. Madan Quick Foto Private Limited
37.	010996	M/s. Mukta Sundhi Bhandar Private Limited
38.	009941	M/s. Narmada Polymers (India) Limited

1	2	3
39.	016586	M/s. Ezzi Irrigation Private Limited
40.	017450	M/s. Baijnath Saraswat Infrastructure Private Limited
41.	018826	M/s. Iac Trading Private Limited
42.	018237	M/s. FC Finn Beauty Care Private Limited
43.	009512	M/s. Swadesh Hotel and Resort Private Limited
44.	011041	M/s. Jai Jwala Exports Private Limited
45.	020394	M/s. Spersh Power and Steel Private Limited
46.	017615	M/s. Shivnath Real Estate Private Limited
47.	007273	M/s. Raipur Fragrances Private Limited
48.	019079	M/s. APS Jewellery Private Limited
49.	020018	M/s. Sim Infrastructures Private Limited
50.	017976	M/s. SBS Enterprises Private Limited
51.	015154	M/s. Indore Enterprise Private Limited
52.	013895	M/s. Kishipra Exim Private Limited
53.	014730	M/s. Khajuraho Exports Private Limited
54.	007711	M/s. Rajshree Publications Private Limited
55.	005735	M/s. Precious Granite Limited
56.	016571	M/s. Oldfox Services Private Limited
57.	016052	M/s. Shreevidya Niketan Gurukul Private Limited
58.	018035	M/s. Shivaish Services Private Limited
59.	004822	M/s. Chhatisgarh Ispat Udyog Private Limited
60.	017982	M/s. Moonstar Impex Private Limited
61.	007644	M/s. Flyfot Computer Embroiders Private Limited
62.	011736	M/s. Frontier Finlease Limited
63.	019037	M/s. S. S. Agro Tech Private Limited
64.	005261	M/s. Kamdhenu Tourist Private Limited
65.	007200	M/s. Saboo Investments Private Limited
66.	013145	M/s. Apco Remedies India Limited
67.	017974	M/s. Satpreet Cotex Private Limited
68.	005203	M/s. Shefali Engineers & Traders Private Limited

MUKESH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Madhya Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Gwalior-474009, the 9th October 2012

No. RoC--cum-OL-C.G./u/s. 560(5)/2012/1238—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

S. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	015892	M/s. Metafine Metallurgical Private Limited
2.	021498	M/s. Babylon Power Private Limited
3.	017990	M/s. Travel Nine Private Limited
4.	020087	M/s. Synergy Mindscape Private Limited

R. K. SAHU
Asstt. Official Liquidator
Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deep Twisters Private Limited

Ahmedabad-380013, the 3rd October 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2012/00206/1386—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deep Twisters Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Lakshmi Systems Private Limited

Pondicherry-605011, the 20th September 2012

No. 3(109)/560(5)/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lakshmi Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. SWAMIDASON
Registrar of Companies
Pondicherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Igma Consultants Private Limited

Cuttack-753014, the 3rd October 2012

No. RoC/FTE/Sec. 560(5)/2012/3710—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Igma Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

C. K. DAS
Asstt. Registrar of Companies
Odisha

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012